

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**जुलाई, 2017 सत्र**  
**दैनिक कार्य सूची**  
**सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 (आषाढ 26, 1939)**  
**समय 11.00 बजे दिन.**

## 1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री अनिल माधव दवे, केन्द्रीय राज्य मंत्री,
- (2) श्री प्रेम सिंह, सदस्य विधान सभा,
- (3) डॉ. दासारि नारायण राव, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (4) श्री फतेहभानु सिंह चौहान, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (5) श्री सत्यनारायण अग्रवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री नारायण सिंह पवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री के.पी.एस. गिल, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, पंजाब,
- (8) मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मृत व्यक्ति,
- (9) बालाघाट जिले के ग्राम खैरी में पटाखा फेक्ट्री में हुए विस्फोट में मृत व्यक्ति एवं
- (10) कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में मृत व्यक्ति.

## 2. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे -

- (1) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017),
- (2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017),
- (3) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017), तथा
- (4) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017).

## 4. फरवरी-मार्च, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 5. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

## 7. सभापति तालिका की घोषणा.

**भोपाल :**  
**दिनांक : 16 जुलाई, 2017**

**अवधेश प्रताप सिंह**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**